

विषय-सूची

1. प्रयुक्त यांत्रिकी (Applied Mechanics)	3-19
2. द्रव-इंजीनियरिंग (Hydraulic Engineering)	20-35
3. इंजीनियरिंग सामग्री (Engineering Materials)	36-49
4. भवन-निर्माण (Building Construction)	50-61
5. मृदा-इंजीनियरिंग (Soil Engineering)	62-70
6. सर्वेक्षण (Surveying)	71-80
7. निर्माण विज्ञान के सिद्धान्त (Theory of Structures)	81-89
8. महामार्ग इंजीनियरिंग (Highway Engineering)	90-98
9. रेल इंजीनियरिंग (Rail Engineering)	99-107
10. पुल इंजीनियरिंग (Bridge Engineering)	108-114
11. सिंचाई इंजीनियरिंग (Irrigation Engineering)	115-123
12. जल-प्रदाय इंजीनियरिंग (Water Supply Engineering)	124-131
13. स्वच्छता इंजीनियरिंग (Sanitary Engineering)	132-141
14. प्राक्कलन एवं उसका मूल्यांकन (Estimating and its Evaluation)	142-146
15. इस्पाती संरचनाएँ (Steel Structure)	147-155
16. प्रबलित कंक्रीट (Reinforced Cement Concrete)	156-164
• लघु उत्तरीय प्रश्न.....	3-16
• मॉडल प्रश्न-पत्र-1.....	3-8
• मॉडल प्रश्न-पत्र-2.....	9-14
• मॉडल प्रश्न-पत्र-3.....	15-20
• मॉडल प्रश्न-पत्र-4.....	21-26
• मॉडल प्रश्न-पत्र-5.....	27-32